



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpline@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

19 फरवरी 2025

बुलेटिन – फरवरी 2025

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (7 फरवरी 2025), एक भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. केंद्रीय बजट 2025-26: एक मूल्यांकन; III. भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; और IV. कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिकी: रबी विपणन मौसम के दौरान अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय परिदृश्यों के बीच देशों में अलग-अलग संभावना के साथ स्थिर लेकिन मध्यम गति से बढ़ रही है। वित्तीय बाजार अवस्फीति की धीमी गति और टैरिफ के संभावित प्रभाव से चिंतित हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की ओर से बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। भारत में, उच्च आवृत्ति संकेतक, 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान आर्थिक गतिविधि की गति में क्रमिक वृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2025-26 घरेलू आय और खपत को बढ़ावा देने के उपायों के साथ-साथ पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय समेकन और संवृद्धि उद्देश्यों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करता है। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट थी।

II. केंद्रीय बजट 2025-26: एक मूल्यांकन

आकाश राज, हर्षिता यादव, कोवुरी आकाश यादव, आयुषी खंडेलवाल, अनूप के सुरेश और समीर रंजन बेहरा द्वारा

यह आलेख केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। बजट 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की

प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चार प्रमुख संवृद्धि इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर कार्यनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट तत्काल उपभोग समर्थन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के बीच संतुलन बनाता है।

मुख्य बातें:

- 2025-26 में सकल राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है (संशोधित अनुमान, आरई)।
- 2025-26 में राजस्व व्यय में 2024-25 (आरई) की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.2 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्षों के प्रोत्साहन को जारी रखेगा। प्रभावी पूंजीगत व्यय को 2024-25 (आरई) में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025-26 में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक करने का अनुमान है।
- सकल कर राजस्व में 1.07 की उछाल के साथ 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान है, जो व्यापक रूप से 2010-11 से 2018-19 के दौरान के औसत के अनुरूप है।
- मध्यम अवधि की राजकोषीय स्थिरता के लिए, केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को उस स्तर पर बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात 2030-31 तक घटकर 50 ± 1 प्रतिशत हो जाएगा।

III. भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

रचित सोलंकी, कोवुरी आकाश यादव, आयुषी खंडेलवाल, समीर रंजन बेहरा और अत्रि मुखर्जी द्वारा

केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर दिए जाने की पृष्ठभूमि में, यह लेख उदारीकरण के बाद से भारत के सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियों के विकास की जांच करता है। यह सरकारी व्यय की गुणवत्ता और संरचना को आकार देने में संरचनात्मक सुधारों, समष्टि आर्थिक बदलावों और नीतिगत पहलों की भूमिका को रेखांकित करता है। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता (क्यूपीई) सूचकांक - जिसमें पूंजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय और ब्याज भार संकेतक शामिल हैं - को डायनामिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके इन चरों को संचालित करने वाले सामान्य अंतर्निहित कारक को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है¹। परिणामी सूचकांक का उपयोग सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच संबंध की अनुभवजन्य जांच करने के लिए किया गया है।

¹ गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग उन सामान्य अंतर्निहित कारकों को निकालने के लिए किया जाता है जो कई समय श्रृंखला चरों के सह-गति को संचालित करते हैं।

मुख्य बातें:

- 1991 से भारत के सार्वजनिक व्यय प्रक्षेप पथ को छह अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो प्रमुख राजकोषीय नीति सुधारों और समष्टि आर्थिक झटकों द्वारा आकार लेते हैं।
- क्यूपीई सूचकांक से पता चलता है कि उच्च व्यय गुणवत्ता मजबूत आर्थिक निष्पादन और बेहतर सामाजिक परिणामों के साथ संरेखित होती है।
- जबकि केंद्र की व्यय गुणवत्ता जीडीपी संवृद्धि के साथ अधिक मजबूती से जुड़ी हुई है, राज्यों की व्यय गुणवत्ता का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
- राज्य-स्तरीय आंकड़े उच्च क्यूपीई स्कोर और एचडीआई के स्वास्थ्य और शिक्षा घटकों में सुधार के बीच सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि उप-राष्ट्रीय स्तर पर विकासात्मक और पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रमुख राज्यों में मानव विकास को बढ़ावा मिलता है।

IV. कृषि आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता: रबी विपणन सीजन के दौरान अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि

राजिव दास, ऋषभ कुमार, मोनिका सेठी, लव कुमार सांडिल्य और एलिस सेबस्तीन द्वारा

यह आलेख किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से कृषि आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता की जांच करता है। सर्वेक्षण में 12 रबी फसलों को शामिल किया गया है, जैसे कि अनाज के अंतर्गत गेहूं, चावल और मक्का, दलहन के अंतर्गत चना और मसूर, तिलहन के अंतर्गत रेपसीड और सरसों; तथा प्रमुख फल और सब्जियां, मई-जुलाई 2024 के दौरान चुनिंदा उत्पादन (चुने हुए वस्तुओं के प्राथमिक उत्पादक केंद्र) और उपभोग केंद्रों (प्रमुख शहरों) में किया गया। प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल करते हुए इसी तरह के सर्वेक्षण 2018 और 2022 में किए गए थे।

मुख्य बातें:

- सर्वेक्षण में पाया गया है कि विभिन्न फसलों के उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की औसत हिस्सेदारी 40 से 67 प्रतिशत तक है, जिसमें गेहूं उत्पादकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। औसतन, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं (फल और सब्जियां) के मामले में किसानों की हिस्सेदारी गैर-नाशवान वस्तुओं की तुलना में कम पाई जाती है।
- पिछले सर्वेक्षण दौरों में जो फसलें बची थीं, उनके लिए व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के मार्क-अप (कुल लागत के प्रतिशत के रूप में राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर) में आम तौर पर कमी आई है, हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि मार्जिन नमूना कवरेज और सर्वेक्षण के समय पर भी निर्भर हो सकता है। खुदरा स्तर पर देखी गई मार्क-अप सामान्यतः व्यापारियों की तुलना में अधिक थी, विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के संबंध में। टमाटर को छोड़कर सभी सर्वेक्षित फलों और सब्जियों के लिए उपभोक्ता कीमतों में व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की संयुक्त हिस्सेदारी आधे से अधिक होने का अनुमान है।

- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग व्यापारियों में सबसे अधिक था, उसके बाद खुदरा विक्रेताओं में और 2018 और 2022 के सर्वेक्षणों की तुलना में सभी आपूर्ति श्रृंखला प्रतिभागियों के लिए इसमें वृद्धि हुई है। हालाँकि, मंडियों में लेन-देन के लिए नकदी ही प्रमुख भुगतान माध्यम बना रहा।
- रबी की बुवाई के संबंध में किसानों के निर्णय में मौसम पूर्वानुमान और सिंचाई की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश किसानों का मानना है कि फसल क्षति का मुख्य कारण बेमौसम वर्षा है, जिसके बाद कीटों का हमला और गर्म हवाएं हैं।
- अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च लेन-देन लागत (परिवहन, श्रम, किराया) खुदरा विक्रेताओं के मार्कअप को कम करती है, जबकि शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों में फसल के बाद होने वाला उच्च घाटा, खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं पर घाटा डालने की अनुमति देता है।

बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।